



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2004/पौष 24, 1925

No. 53]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2004/PAUSA 24, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2004

का.आ. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष) की अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ), तारीख 20 जनवरी, 2000, को अधिक्रांत करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

उपधारा 2 के खंड (i) से (iv) के अधीन पदेन सदस्य :

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. औषधि महानियंत्रक (भारत) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सलाहकार (आयुर्वेद), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष) नई दिल्ली।
4. निदेशक, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता।

उपधारा 2 के खंड (v) के अधीन नामनिर्देशित :

5. निदेशक, भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद (उ.प्र.)।

उपधारा 2 के खंड (vi) के अधीन नामनिर्देशित :

6. सुश्री सविता सतकोपन, 4, सेवेंथ स्ट्रीट, नंगनल्लूर, चेन्नई-600061.

उपधारा 2 के खंड (vii) के अधीन नामनिर्देशित :

7. श्रीमती सुषमा द्रबु, पादप रसायन विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

उपधारा 2 के खंड (viii) के अधीन नामनिर्देशित :

8. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय औषधि विनिर्माण कांग्रेस, 143, सराय काले खां, नई दिल्ली।
9. प्रो. वी.के. जोशी, द्रव्यगुण विभाग, आयुर्वेद संकाय विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)।
10. प्रो. अनिस अ. अंसारी, सलाहकार (यूनानी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष), नई दिल्ली।

11. डा. एम.ए. कुमार, उप सलाहकार (सिद्ध), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष), नई दिल्ली।

उपधारा 2 के खंड (ix) के अधीन नामनिर्देशित :

12. प्रो. के.सी. चुनेकर (सेवानिवृत्त), द्रव्य गुण विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.), 18/7, रतन फाटक, वाराणसी-221005.

उपधारा 2 के खंड (x) के अधीन नामनिर्देशित :

13. डा. मदन स्वरूप गुप्ता, (सेवा निवृत्त प्राध्यापक), 22-बी, अहिंसा विहार, सैक्टर 9, प्लॉट नं. 27/1, रोहिणी, दिल्ली-110085.

उपधारा 2 के खंड (xi) के अधीन नामनिर्देशित :

14. प्रो. चिदम्बरम, राजकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायनकोट्टई, तिरुनेलवेली (तमिलनाडु)-627002.

उपधारा 2 के खंड (xii) के अधीन नामनिर्देशित :

15. डा. चंद्रकांत कटियार, निदेशक, अनुसंधान और विकास प्रभाग, रेनबैक्सी, डी-173, बथाला अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 43, आई पी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली।
16. डा. शेषाद्रि, प्रबंधन निदेशक, इंडियन मेडिकल प्रैक्टीशनर्स को-ऑपरेटिव फार्मसी एंड स्टोर्स (इम्पकोस), तिरुवेनमियूर, चेन्नई-600041.
17. प्रबंधक, हमदर्द वक्फ लेबोरेटरीज, नई दिल्ली।

उपधारा 2 के खंड (xiii) के अधीन नामनिर्देशित :

18. वैद्य एस.पी. डोगरा, अध्यक्ष, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन (नीमा), 81, शहीद उधम सिंह नगर, जालंधर।
19. डा. सईद खलीफातुल्लाह, उपाध्यक्ष, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम), 49, भारती सलाय, चेन्नई-600005.
20. डा. पी.एस. मीनाम्बल, राजकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायनकोट्टई, तमिलनाडु।

2. केंद्रीय सरकार एतद्वारा डा. एस.पी. अग्रवाल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, पदेन सदस्य को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है और डा. एस.के. शर्मा, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बोर्ड के सचिव होंगे।

[सं. के. 11024/2/2003-डीसीसी (आयुष)]

तारादत्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2004

S.O. 60(E).—In exercise of the powers conferred by Section 33C of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), No. S.O. 60(E) dated the 20th January, 2000, the Central Government hereby constitutes with effect from the date of issue of this notification, the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board consisting of the following members, namely :—

Ex-Officio Members under clauses (i) to (iv) of Sub-section (2) :

1. The Director General of Health Services, Ministry of Health & F.W., Government of India, New Delhi.
2. The Drugs Controller General (India), Ministry of Health & F.W., Government of India, New Delhi.
3. Advisor (Ayurveda), Ministry of Health & Family Welfare, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy [AYUSH], New Delhi.
4. The Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata.

Nominated under clause (v) of Sub-section (2) :

5. The Director, Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicines, Ghaziabad (U.P.)

Nominated under clause (vi) of Sub-section (2) :

6. Ms. Savita Satakopan, 4, Seventh Street, Nanganallur, Chennai – 600061.

Nominated under clause (vii) of Sub-section (2) :

7. Mrs. Sushma Drabu, Department of Phytochemistry, Jamia Millia Islamia, New Delhi.

Nominated under clause (viii) of Sub-section (2) :

8. Vaidya Devendra Triguna, President All India Drug Manufacturers Congress, 143, Sarai Kale Khan, New Delhi.
9. Prof. V. K. Joshi, Department of Dravyaguna, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.).
10. Professor Anis A. Ansari, Adviser (Unani), Ministry of Health & Family Welfare, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy [AYUSH], New Delhi.
11. Dr. M. A. Kumar, Dy. Adviser (Siddha), Ministry of Health & Family Welfare, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy [AYUSH], New Delhi.

Nominated under clause (ix) of Sub-section (2) :

12. Prof. K. C. Chunekar (Retired), Department of Dravyaguna, Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.), 18/7, Ratan Phatak, Varanasi – 221005.

Nominated under clause (x) of Sub-section (2) :

13. Dr. Madan Swarnup Gupta (Retired teacher), 22-B, Ahinsa Vihar, Sector 9, Plot No. 27/1, Rohini, Delhi – 85.

Nominated under clause (xi) of Sub-section (2) :

14. Prof. Chidambaran, Government Siddha Medical College, Palayankottai, Tirunelveli, (Tamil Nadu) – 627002.

Nominated under clause (xii) of Sub-section (2) :

15. Dr. Chandra Kant Katiyar, Director, R & D Division, Ranbaxy, D-173, Bathala Apartment, Plot No. 43, I.P. Extension, Patparganj, Delhi.
16. Dr. Sheshadri, Managing Director, Indian Medical Practitioners Co-operative Pharmacy & Stores (IMPCOS), Thiruvannamur, Chennai – 600041.
17. Manager, Hamdard Waf Laboratories, New Delhi.

Nominated under clause (xiii) of Sub-section (2) :

18. Vaidya S. P. Dogra, President, National Integrated Medical Association (NIMA), 81, Shaheed Udham Singh Nagar, Jalandhar.
19. Dr. Syed Khaleefatullah, Vice President, Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM), 49, Bharati Salai, Chennai – 600005.
20. Dr. P. S. Meenambal, Government Siddha Medical College, Palayamkottai, Tamil Nadu.

2. The Central Government hereby appoints Dr. S. P. Agarwal, Director General of Health Services, Government of India, an ex-officio member, as Chairman and Dr. S. K. Sharma, Adviser (Ayurveda), Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy [AYUSH], Ministry of Health & Family Welfare will be the Secretary of the Board.

[No. K. 11024/2/2003-DCC (AYUSH)]

TARADATT, Jt. Secy.